

# UP Board Notes Class 6 English Chapter 6 Celebrating Independence Day

(पाठ का हिन्दी अनुवाद)

**Tomorrow, it is..... National Anthem.**

हिन्दी अनुवाद – (कल हमारे देश का स्वतंत्रता दिवस है। रितेश एक राष्ट्रीय ध्वज बना रहा है। उसके कमरे में उसकी छोटी बहन शुभी आती है।)

**शुभी :** भईया, आप किसी काम में व्यस्त हैं

**रितेश :** कल 15 अगस्त, हमारा स्वतंत्रता दिवस है और मैं एक राष्ट्रीय ध्वज बना रहा हूँ।

**शुभी :** क्या मैं इसे बनाने में आपकी मदद करूँ?

**रितेश :** ओह, हाँ, क्यों नहीं! आ जाओ। हम इसे मिलकर बनाएंगे। क्या तुम जानती हो शुभी कि झंडे में तीन रंगों का क्या महत्त्व है?

**शुभी :** मैं नहीं जानती भईया। क्या आप मुझे बता सकते हैं?

**रितेश :** नारंगी बलिदान दर्शाता है, सफेद शांति और हरा खुशहाली दर्शाता है।

**शुभी :** सफेद पट्टी में एक नीला चक्र है। यह क्या दर्शाता है?

**रितेश :** सफेद पट्टी के मध्य में यह अशोक चक्र है जिसकी 24 तीलियाँ हैं। यह दिन के 24 मूल्यवान घंटों को दर्शाते हैं।

**शुभी :** आप इस झंडे का कल क्या करेंगे ?

**रितेश :** हमारे स्कूल में एक परेड होगी। राष्ट्रीय ध्वज फहराया जाएगा और हम राष्ट्रगान गाएँगे।

**Shubhi.....serve our country.**

हिन्दी अनुवाद –

**शुभी :** इस दिन और क्या किया जाएगा?

**रितेश :** इस दिन हम अपने स्वतंत्रता सेनानियों के बहादुरी के कार्यों को सलाम करते हैं। गाँधीजी, सरदार पटेल, सुभाष चंद्र बोस, भगत सिंह और बहुत से सेनानियों ने कई वर्षों तक लड़ाई लड़ी ताकि भारत एक स्वतंत्र देश बन सके।

**शुभी :** रितेश, क्या आप किसी कार्यक्रम में भाग ले रहे हैं?

**रितेश :** हाँ, मैं एक भाषण दूंगा।

**शुभी :** आप अपने भाषण में क्या कहेंगे?

**रितेश :** मैंने न सिर्फ स्वतंत्रता दिवस के बारे में लिखा है बल्कि हमारे अपने देश को लेकर अपने कर्तव्य के बारे में भी लिखा है।

**शुभी :** हमारे देश को लेकर क्या कर्तव्य है?

**रितेश :** समाज के लिए अच्छा करना।

**शुभी :** हम ऐसा कैसे कर सकते हैं?

**रितेश :** दूसरों की मदद करके, सफाई बनाए रख कर, पेड़ लगाकर, बड़ों का सम्मान करके, आदि।

**शुभी :** इसका मतलब हर एक को अपने आसपास को बेहतर बनाने के लिए कुछ न कुछ करना ही चाहिए।

**रितेश :** हाँ शुभी, यदि हम सभी थोड़ा-थोड़ा योगदान दें हमारे देश को मदद

मिलेगी।

**शुभी :** मईया, कल मैं अपने पुराने खिलौने और कपड़े गरीब बच्चों को दूँगी।

**रितेश :** बहुत अच्छा शुभी, यह भी एक तरीका है अपने देश की सेवा करने का।

evidyarthi